

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 सितम्बर 2016—भाद्र 30, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2016 (भाद्र 30, 1938)

क्र. 25787-वि.स.-विधान-2016.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा, इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ.

भोपाल :  
दिनांक 20 सितम्बर, 2016

ओम प्रकाश कोहली  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.